

Participants : Singh Dr. Akhilesh Prasad

an>

Title: The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Minister of State in the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution made a statement correcting Hindi version of the reply given on August 14, 2006 to Starred Question No. 294 by Dr. Rajesh Mishra and Sh. Avtar Singh Bhadana, M Ps regarding procurement of poor quality of foodgrains and giving reasons for delay in correcting the reply.

*कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह) : महोदय, लोक सभा में दिनांक 14 अगस्त, 2006 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 294 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण।

(क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003, 2004 और 2005 के दौरान खराब गुणवत्ता के गेहूँ और चावल की वसूली करने के आरोप के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों/ कर्मचारियों के खिलाफ कोई तलाशी नहीं ली है। तथापि, वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 3 मामलों में तलाशी ली थी, जिनमें 330 प्राइवेट चावल मिल-मालिकों के अलावा भारतीय खाद्य निगम, पंजाब क्षेत्र के तत्कालीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक सहित 83 अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ इस आरोप पर दिनांक 7.1.06 को 3 प्राथमिकियां दर्ज की गयी थीं कि खरीफ विपणन मौसम (2004-05) के दौरान पंजाब क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने प्राइवेट चावल मिल-मालिकों के साथ आपराधिक षडयंत्र करके घटिया चावल का परेण स्वीकार किया था और उसके लिए ग्रेड- ए चावल हेतु यथाविहित दर से भुगतान रिलीज किया था, जिससे भारतीय खाद्य निगम को भारी वित्तीय हानि हुई थी।

(ख) : उपर्युक्त सभी तीनों मामलों में जांच चल रही है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इनमें तेजी लाई जा रही है लेकिन मौजूदा अवस्था में इसके पूर्ण होने के संबंध में निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

वभाग के ध्यान में गलती के देरी से आने के कारण सही किया गया उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर सदन के पटल पर नहीं रखा जा सका।